



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 1984/ज्येष्ठ 25, 1906
No. 279] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 1984/JYAISTHA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1984

का. आ. 466(अ) :—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का.
आ. 350(अ.) तारीख 20 जून, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसकी पश्चात् उक्त आदेश
कहा गया है) पोदोंग चाय एस्टेट, पी. ओ. बेलयाची, कुर्सिजोंग, जिला दार्जिलिंग
नामक चाय यूनिट का प्रबन्ध चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा (इ)
की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 19 जून, 1984 तक, जिसमें यह
तारीख भी सम्मिलित है, 5 वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और
उक्त चाय यूनिट का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये म. एण्ड्रयूल एण्ड कम्पनी लि.,
कलकत्ता को प्राधिकृत किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय यूनिट में एण्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लि., कलकत्ता के प्रबन्धक के अधीन 6 महीने की और अवधि के लिये बना रहे ;

अतः, केन्द्रीय सरकार चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 16 (घ) की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16 (ङ) की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 19 दिसम्बर, 1984 तक 6 महीने की और अवधि के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. बी-12012 (3)/78-बागान 'क']

विनोद चन्द्र पाण्डेय, अपर-सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1984

S. O. 446(E):—Whereas by the Order of the Government of India in Ministry of Commerce No. S. O. 350(E) dated the 20th June, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management, of the tea unit known as Potong Tea Estate, P. O., Belgachi, Kurseong, Darjeeling District, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 16(E) of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 19th June, 1984 and M/s. Andrew Yule & Company Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the said tea unit.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of M/s. Andrew Yule & Company Limited, Calcutta for a further period of six months;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 16(E) read with the proviso to sub-section (2) of section 16(D) of the Tea Act 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 19th December, 1984.

[File No. B-12012(3)/78-Plant 'A']

V. C. Pande, Addl. Secy.